

72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 8006-पीबीआर/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 21-12-2016 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर पृष्ठांकन क्रमांक 5(1) 2016-17/6304.

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड
सेहतगंज जिला रायसेन

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन
- 3- सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आगर मालवा
- 4- प्रभारी अधिकारी, मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज जिला रायसेन

.....प्रत्यर्थीगण


श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/17 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे बोटलबन्द देशी मदिरा प्रदाय के लिए आवंटित आगर मालवा क्षेत्र के मद्यभाण्डागार आगर में माह अप्रैल 2014, मई 2014 तथा अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 एवं मद्यभाण्डागार सुसनेर में माह अप्रैल 2014, माह मई 2014 तथा नवम्बर 2014, फरवरी 2015 तथा मार्च 2015 तक की अवधि में मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 (जिसे संक्षेप में देशी स्पिरिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4 (4) के अनुसार विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य





भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह मद्यभाण्डागार में नहीं रखे जाने के कारण आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 5(1)/15-16/372 दिनांक 3-2-2016 जारी किया गया । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक नहीं होने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 21-12-2016 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्पिरिट नियम के नियम 4 (4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन किये जाने से देशी स्पिरिट नियमों के नियम 12(1) के अन्तर्गत अपीलार्थी पर रुपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 78 दिवस बोतल बंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 19,500/- कुल रुपये 34,500/- शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :-

(1) आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है ।

(1) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना का स्पष्ट जवाब दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया गया था कि आसवक द्वारा उसे आवेटित क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में निरन्तर आवश्यकता एवं मांग के अनुसार मदिरा का प्रदाय किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2014-15 में प्रदाय व्यवस्था सकुशल रही साथ ही शासन को अतिरिक्त आय भी हुई है ।

(2) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा मदिरा दुकानें बन्द रहने के कारण क्षति पूर्ति की मांग का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार प्रदाय देने में कोई विलम्ब हुआ है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर जो आरोप लगाया गया है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है ।




(3) राज्य शासन को क्या हानि हुई है, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 (दो) एस.सी.सी. 181, 2008 (14) एस.सी.सी. 151 ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 1216, ए.आई.आर. 1981 एस.सी.सी. 136, 2010 आर.एन. 101 उच्च न्यायालय, 1989 जे.एल.जे. 185, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1680 एवं 1989 आर.एन. 76 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्प्रिट नियम के नियम 4(4) के अन्तर्गत 5 दिनों का औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतल बन्द मदिरा का संग्रह मद्यभाण्डागार में रखना अनिवार्य है, जो कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं रखा गया है, और न ही स्कंध की न्यूनतम संग्रह नहीं रखने का कोई कारण नहीं बतलाया गया है । ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने में उचित कार्यवाही की गई है ।

उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक 78 दिवस में बोतल बन्द देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध नहीं रखा गया है । इस प्रकार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्प्रिट नियम के नियम 4 (4) का उल्लंघन किया गया है । ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा देशी स्प्रिट नियम 12 (1) के अन्तर्गत 15000/- शास्ति एवं माह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक 78 दिन बोतल बन्द देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध नहीं रखने के कारण रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 19,500/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल रुपये 34,500/- शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में जहाँ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रावधान हैं, और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2016 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

यह आदेश अपील प्रकरण क्रमांक 8002-पीबीआर/17 मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड विरुद्ध आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर आदि पर भी लागू होगा। अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर